

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 476]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 29 नवम्बर 2016—अग्रहायण 8, शक 1938

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

सूचना

भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर 2016

क्र. एफ-6-2-2013-सात-3-2016.—राज्य सरकार द्वारा दिनांक 29 नवम्बर 2016 को लिए गए निर्णय अनुसार राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (3) में दर्शाई तहसीलों को सूखा प्रभावित मानती है, और वृहद प्रचार एवं सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह सूचना प्रकाशित की जाती है:—

क्रमांक (1)	जिले का नाम (2)	तहसील का नाम (3)
1	बालाघाट	1. कटंगी, 2. बिरसा
2	दतिया	1. भांडेर
3	मुरैना	1. अम्बाह, 2. जौरा, 3. कैलारस
4	ग्वालियर	1. ग्वालियर, 2. घाटीगांव, 3. डबरा, 4. भितरवार
	योग . . 04	कुल 10 तहसीलें

## NOTICE

No. F-6-2-2013-VII-3-2016.—On the basis of taking decision by the State Government, dated 29th November 2016, the State Government hereby, recognize the drought affected tahsils shown in Column in (3) of Schedule given below and this notice is published for *wide* publicity and information to general public:—

S. No. (1)	Name of District (2)	Name of Tahsils (3)
1	Balaghat	1. Katangi, 2. Birsa
2	Datia	1. Bhandar
3	Morena	1. Ambah, 2. Joura, 3. Kailaras
4	Gwalior	1. Gwalior, 2. Ghatigaon, 3. Dabra, 4. Bhitwar
	Total . . 04	10 Tahsils

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अरूण कुमार पाण्डेय, प्रमुख सचिव.